

PR305

Roll No. : .....

- (a) अमर का सालवार महिला (c) अमर का गर्भ महिला (e) अमर का गर्भ महिला (g)  
 (b) अमर का बिल्ली लड़का (d) अमर का बिल्ली लड़का (f) अमर का बिल्ली लड़का (h)  
 (d) अमर का बिल्ली लड़का (e) अमर का बिल्ली लड़का (f) अमर का बिल्ली लड़का (g)

2020

## REPRODUCTION PHOTOGRAPHY & TECHNIQUES - II

निर्धारित समय : तीन घंटे]

[अधिकतम अंक : 70

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any FOUR questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (1) ग्रे स्केल का प्रयोग होता है
- (a) मुद्रण में (b) प्लेट बनाने में (c) पुनर्उत्पादन फोटोग्राफी में (d) रिप्रोडक्यूशन फोटोग्राफी में
- Grey scale is used in
- (a) Printing (b) Plate Making (c) Binding (d) Reproduction photography
- (2) रंग संशोधन किया जाता है
- (a) मुद्रण से पूर्व (b) मुद्रण के पश्चात् (c) मुद्रण के समय (d) कभी भी
- Colour correction is done
- (a) Before printing (b) After printing (c) During printing (d) Any time
- (3) स्व-स्क्रीन परत में स्क्रीन दिखाई देती है
- (a) विकास से पूर्व (b) विकास के दौरान (c) मुद्रण के समय (d) कभी भी
- Screen becomes visible in an auto-screen film
- (a) before development (b) during development (c) at the time of printing (d) any time

(4) मॉयर पैटर्न दोष उत्पन्न होता है

- (a) स्क्रीन कोण के कारण
- (b) स्क्रीन विकास के कारण
- (c) स्क्रीन रुलिंग के कारण
- (d) उपरोक्त सभी के कारण

The Moire pattern defect occurs due to

- (a) Difference in screen angle
- (b) Development of screen
- (c) Screen ruling
- (d) All of above

(5) प्रत्यक्ष रंग पृथक्करण से प्राप्त होता है

- (a) लाइन नेगेटिव
- (b) हॉफटोन नेगेटिव
- (c) लगातार टोन नेगेटिव
- (d) स्क्रीन नेगेटिव

By the direct colour separation we can get

- (a) Line negative
- (b) Halftone negative
- (c) Continuous tone negative
- (d) Screen negative

(6) किसी क्षेत्र की टोनल वैल्यू को जाना जाता है

- (a) अपारदर्शिता
- (b) घनत्व
- (c) पारदर्शिता
- (d) विशिष्ट घनत्व

Tonal value of an area is known as

- (a) Opacity
- (b) Density
- (c) Transparency
- (d) Specific gravity

(7) UCR को कहते हैं

- (a) अन्डर कट रूल
- (b) अपर क्रॉस रूल
- (c) अन्डर कलर रिमूवल
- (d) कोई नहीं

UCR is known as

- (a) Under Cut Rule
- (b) Upper Cross Rule
- (c) Under Colour Removal
- (d) None

(8) काँच हॉफटोन स्क्रीन का प्रयोग होता था

- (a) ऊर्ध्वाधर कैमरों में
- (b) क्षैतिज कैमरों में
- (c) फोटोग्राफिक कैमरों में
- (d) प्रोसेस एनलार्जर में

Glass halftone screen were used in

- (a) vertical camera
- (b) horizontal camera
- (c) photographic camera
- (d) process enlarger

(9) हॉफटोन फोटोग्राफी में स्क्रीन कोण का अंतर रखा जाता है

- (a)  $60^\circ$
- (b)  $75^\circ$
- (c)  $30^\circ$
- (d)  $90^\circ$

Difference should be maintain during halftone photography in screen angle is

- (a)  $60^\circ$
- (b)  $75^\circ$
- (c)  $30^\circ$
- (d)  $90^\circ$

(10) "डॉट की साइज स्थाही के घनत्व को प्रभावित करती है।" यह कथन किसी प्रकार संदर्भ में (a)

- (a) सत्य है। स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि स्ट्रिप (d)
- "Size of dots effects the density of ink." This statement is हालांकि स्ट्रिप (a)
- (a) True स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) Does not effect स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)

(11) पुनःस्क्रीनिंग की प्रक्रिया का प्रयोग होता है किसी प्रकार संदर्भ में (a)

- (a) छपे हुए मूलों के लिए स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) बाइनिंग के लिए स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)
- Rescreening process is used for हालांकि स्ट्रिप (a)
- (a) printed originals स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) binding स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)

(12) रंगीन चित्रों के पुनर्उत्पादन में प्रयोग होता है किसी प्रकार संदर्भ में (a)

- (a) ग्रे सम्पर्क स्क्रीन का स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) स्व स्क्रीन का स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)
- For the reproduction of colour illustration the screen is used हालांकि स्ट्रिप (a)
- (a) Grey contact स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) Auto screen स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)

(13) रंग संशोधन की प्रक्रिया नहीं है किसी प्रकार संदर्भ में (a)

- (a) नेगेटिव मास्किंग स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) कैमरा बैक मास्किंग स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)
- Which is not a colour correction process ? हालांकि स्ट्रिप (a)
- (a) Negative masking स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) Camera back masking स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)

(14) ड्यूटोन नेगेटिव का प्रभाव प्रतीत होता है किसी प्रकार संदर्भ में (a)

- (a) एक रंगीय स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) बहु-रंगीय स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)
- Duotone negative give the effect of हालांकि स्ट्रिप (a)
- (a) single colour स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) multicolour स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)

(15) इलेक्ट्रॉनिक रंग स्कैनर का प्रयोग होता है किसी प्रकार संदर्भ में (a)

- (a) रंग पृथक्करण में स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) रंग चयन में स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)
- Electronic colour scanner is used for हालांकि स्ट्रिप (a)
- (a) colour separation स्ट्रिप इन्डिकेशन (b)
- (c) colour selection स्ट्रिप इन्डिकेशन (d)

(16) हाफटोन पिक्चर होती हैं कि जानकारी कि छाप एवं डिजिटल सिग्नल कि रूप में है। (01)

- (a) क्रॉस लाइन पिक्चर
  - (b) डॉटेड पिक्चर
  - (c) घनी पिक्चर
  - (d) उल्टी पिक्चर
- Halftone images are
- (a) Cross line picture
  - (b) Dotted picture
  - (c) Dense picture
  - (d) Reverse picture

(17) U.C.R. में स्थाहियों की खपत कम होती है कि यह प्रिंटर का संकेत कि आमीक्सिंग में है। (01)

- (a) पीली स्थाही
  - (b) गुलाबी स्थाही
  - (c) स्थान स्थाही
  - (d) यह सभी
- U.C.R. decreases the consumption of
- (a) yellow ink
  - (b) pink ink
  - (c) cyan ink
  - (d) All of these

(18) संवेदी परत पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित करता है कि यह प्रिंटर का संकेत कि स्टाम्पिंग के लिए है। (01)

- (a) वोल्टामीटर
  - (b) एम्पलीफायर
  - (c) लाइट इंट्रीग्रेटिंग मीटर
  - (d) घनत्वमापी
- Light rays falls on sensitive emulsion is controlled by
- (a) Voltmeter
  - (b) Amplifier
  - (c) Light integrating meter
  - (d) Densitometer

(19) ड्रॉप आउट नेगेटिव का प्रयोग होता है कि यह प्रिंटर का संकेत कि स्टाम्पिंग के लिए है। (01)

- (a) सम्पूर्ण सफेद क्षेत्र के लिए।
  - (b) सम्पूर्ण काले क्षेत्र के लिए।
  - (c) सम्पूर्ण ग्रे क्षेत्र के लिए।
  - (d) उपरोक्त सभी।
- Dropout negative are used for
- (a) completely white area
  - (b) completely black area
  - (c) completely grey area
  - (d) All of the above

(20) घनत्व व एक्सपोजर के बीच एक संवेदी परत के लिए खींचा गया ग्राफ़ होता है कि यह प्रिंटर का संकेत कि स्टाम्पिंग के लिए है। (01)

- (a) एक वृत्तीय रेखा
- (b) एक सीधी रेखा
- (c) क्रॉस रेखा
- (d) कोई नहीं

A graph plotted for a light sensitive film in between density & exposure is produced as

- (a) A circular line
- (b) A straight line
- (c) Cross line
- (d) None

(21) फॉर्मर्स अपचायक घोल का प्रयोग होता है कि यह प्रिंटर का संकेत कि स्टाम्पिंग के लिए है। (01)

- (a) घनत्व को बढ़ाने में
- (b) घनत्व को कम करने में
- (c) घनत्व को नापने में
- (d) कोई नहीं

Formers reducer solution is used to

- (a) Increase the density
- (b) Decrease the density
- (c) Measuring the density
- (d) None

(22) फिल्टर गुणांक का प्रयोग होता है

- (a) एक्सपोजर को बढ़ाने में
- (b) एक्सपोजर को घटाने में
- (c) घनत्व को बढ़ाने में
- (d) घनत्व को घटाने में

Filter factor is used to

- (a) Increase the exposure
- (b) Decrease the exposure
- (c) Increase the density
- (d) Decrease the density

(23) निम्न में से रंग संशोधन की विधि नहीं है

- (a) ट्राई मास्क
- (b) एकल ओवरले
- (c) नेगेटिव मास्किंग
- (d) री-स्क्रीनिंग

Which one of the following is not a method of colour correction ?

- (a) Tri Mask
- (b) Single overlay
- (c) Negative masking
- (d) Re-screening

(24) स्क्रीन रूलिंग की इकाई है

- (a) डी.पी.आई.
- (b) पिक्सेल
- (c) एल.पी.आई.
- (d) डॉट घनत्व

Unit of Screen Ruling is

- (a) D.P.I.
- (b) Pixels
- (c) L.P.I.
- (d) Dot Density

(25) सामान्य शक्ति की सामान्य टोन एक निश्चित क्षेत्र में डालने की प्रक्रिया कहलाती है

- (a) स्क्रीन टिंट
- (b) पैटर्न
- (c) टोन
- (d) कोई नहीं

To lay an even tone of an even strength over a definite area, the process is known as

- (a) Screen tint
- (b) Pattern
- (c) Tone
- (d) None

(26) \_\_\_\_\_ रंग सिद्धांत जिसका प्रयोग मुद्रण में किया जाता है।

- (a) एडीटिव
- (b) सब्सट्रैक्टिव
- (c) पेन्टोन
- (d) मुद्रण स्थाही

\_\_\_\_\_ colour theory which is followed by printing.

- (a) Additive
- (b) Subtractive
- (c) Pentone
- (d) Printing ink

(27) डिजिटल इमेज की रिकॉर्डिंग के लिए प्रयुक्त डिवाइस है

- (a) की-बोर्ड
- (b) स्कैनर
- (c) सीडी
- (d) मॉडम

To capture a digital image the device is used

- (a) Key board
- (b) Scanner
- (c) CD
- (d) MODEM

(28) डॉट की संख्या को जाना जाता है

- (a) डॉट पर सेमी
- (b) डॉट पर सेक्यर
- (c) डॉट पर इंच
- (d) डॉट एचिंग

Number of dots is known as

- (a) Dot per centimeter
- (b) Dot per square centimeter
- (c) Dot per inch
- (d) Dot etching

(29) "इयूओटोन" को जाना जाता है

- (a) दो रंगों की हाफटोन इमेज जो एक सिंगल पीस से बनी हो।
- (b) दो रंगों की हाफटोन इमेज जो दो पीस से बनी हो।
- (c) एकल रंगीय हाफटोन इमेज जो एक पीस से बनी हो।
- (d) चार रंग की इमेज जो एक पीस से बनी हो।

Duotone is known as

- (a) Two colour halftone image made from single piece.
- (b) Two colour halftone image made from two pieces.
- (c) Single colour halftone image from single piece.
- (d) Four colour image from a single piece.

(30) रिट्चिंग की एक प्रक्रिया है

- (a) स्टेजिंग
- (b) प्लानिंग
- (c) परफोरेटिंग
- (d) उपरोक्त सभी

It is a process of retouching -

- (a) Staging
- (b) Planning
- (c) Perforating
- (d) All of above

(1x30)

2. निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :

Define the following :

(i) सर्कुलर स्क्रीन

Circular Screen

(ii) रंग पृथक्करण गाइड

Colour separation guide

(iii) लाइन नेगेटिव

Line Negative

(iv) फिक्सर

Fixer

(v) स्टॉप बाथ

Stop bath

(2x5)

3. 'थ्री कलर सैपरेशन' बनाने के लिए कौन से कलर फिल्टर उपयोग किए जाते हैं ? पूर्ण कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

What colour filters are used to make three colour separation ? Explain the complete process. (10)

4. मास्किंग क्या है ? 'सिंगल लेयर' एवं 'मल्टीलेयर मास्किंग' का वर्णन चित्र सहित कीजिए।

What is masking ? Explain single layer masking and multilayer masking with diagram. (10)

5. अधो-वर्ण विलोपन से आप क्या समझते हैं और ब्लैक प्रिंटर का क्या महत्व है ?

What is under colour removal ? And what is the importance of Black – Printer ? (10)

6. रिटचिंग क्यों आवश्यक है ? वर्णन कीजिए। नेगेटिव की चार मुख्य त्रुटियों के विषय में बताइए।

Why retouching is necessary ? Explain. Write four common defects of negative. (10)

7. 'रजिस्ट्रेशन' से आपका क्या अभिप्राय है ? रजिस्ट्रेशन की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन करें।

What is registration ? Give different methods of registration in detail. (10)

8. 'कलर सैपरेशन' कैसे किया जाता है ? डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट विधि के बारे में बताइए।

How colour separation is done ? Explain direct and indirect process of colour separation. (10)

9. किन्हीं दो का संक्षेप में वर्णन करें :

Write short notes on any two : (5+5)

(i) डम्मी स्क्रीन

Dummy Screen

(ii) डॉट एचिंग

Dot Etching

(iii) स्केलिंग ऑफ ओरिजिनल

Scaling of Original

लिंग वाले विद्युतीय ग्रन्थों के लिए पहली राज्यालयीक अधिकारी ने इसकी विशेषज्ञता का अनुभव किया है।

- (01) *What action did the government take to take strict compensation measures against the companies that violated the environmental laws?*

- (01) *What will happen if the government fails to implement the environmental laws? Explain with examples.*

- (01) *What is the impact of the new environmental laws on the industry? Explain with examples.*

- (01) *What is the impact of the new environmental laws on the industry? Explain with examples.*

- (01) *What are the main challenges faced by the industry in implementing the new environmental laws? Explain with examples.*

- (01) *What is the impact of the new environmental laws on the industry? Explain with examples.*

- (01) *What is the impact of the new environmental laws on the industry? Explain with examples.*

प्रौद्योगिकी विभाग

प्रौद्योगिकी विभाग